

**बालिका विद्यापीठ लखीसराय (811311 )**

**वर्ग - द्वितीय      दिनांक - 25/06/2020**

**विषय - हिंदी**

**( पाठ -2) बीरबल बन गए बच्चा**

**सुप्रभात बच्चों ,**

**पिछली कक्षाओं में आपने "सूरज जल्दी आना जी" कविता का अध्ययन किए । हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने उस कविता के प्रभावली को भी हल कर लिया होगा । आज हम "बीरबल बन गए बच्चा" कहानी का अध्ययन करेंगे ।**

---

**बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे । सभी दरबारी आ गए थे परंतु बीरबल अभी तक नहीं आए थे । कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे । उन्हें अवसर मिल गया । उनमें से एक अकबर के कान भरे , "बादशाह सलामत ! बीरबल आजकल कितने लापरवाह हो गए हैं ! उन्हें दरबार की फिक्र ही नहीं है , अभी तक नहीं आए ।" उसी छन बीरबल दरबार में आ गए । अकबर ने उनसे देर से आने का कारण पूछा । बीरबल बोले ,**

**"बादशाह सलामत ! मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूं । बच्चे की जिद के कारण देर हो गई ।" अकबर ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा , आप तो बड़ी - बड़ी उलझने मिनटों में सुलझा लेते हैं । फिर भी आप बच्चे की जिद के आगे हार गए। हम इस बात को नहीं मानते । यदि ऐसा है तो अपनी बात को सच साबित कीजिए ।"**

**अपनी बात को सच साबित करने के लिए बीरबल ने कहा कि वे स्वयं बच्चे की तरह जिद करेंगे और बादशाह अकबर को उनकी जिद पूरी करनी होगी । अकबर बीरबल की बात से सहमत हो गए । बीरबल बच्चे की तरह रोने लगे । अकबर ने उन्हें मनाने की कोशिश की तो बीरबल गन्ना खाने की जिद करने लगे। अकबर ने सैनिकों को भेजकर गन्ना मंगवा दिया। अब बीरबल गन्ने को काटकर खाने की जिद करने लगे । अकबर ने गन्ने के टुकड़े करवा दिए तो बीरबल फिर से सावत गन्ना मांगने लगे । अकबर दूसरा गन्ना मंगवाने लगे परंतु बीरबल ने पहले वाले गन्ने के टुकड़ों को जोड़कर ही साबुत गन्ना बनाने की जिद की । यह तो किसी भी तरह संभव नहीं था । बीरबल बच्चे की तरह जोर - जोर से रो कर अपनी जिद पूरी करवाने के लिए कहने लगे । अकबर के पास कोई चारा न**

था । उन्होंने हार मान ली । बीरबल शांत हो गए उन्होंने अपनी बात साबित कर दी थी ।

( हमने सीखा - इस हास्य कहानी से हमने सीखा कि बालहठ को पूरा कर पाना सदैव संभव नहीं होता । बुद्धि और चतुराई से ही अपनी बात को सही साबित किया जा सकता है ।)

**शब्दार्थ - लिखे और याद करें-**

**बादशाह = राजा**

**अवसर = मौका**

**कान भरना = शिकायत करना**

**फिक्र = चिंता**

**आश्चर्य = अचरज**

**उलझाने = परेशानियां**

**साबुत = समूचा , पूरा**

**चारा = उपाय**

**\*\*\*\*\***

**ज्योति**

